

01

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 07.11.2020

त्रिलोकपुर पुलिस का एक छोटा प्रयास, कृष्णा को भेंट किया साइकिल, छात्र कृष्णा की नहीं रुकेगी पढ़ाई

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा दिए गए निर्देश " आमजन/सीनियर सिटिजन/ छात्रों/छात्राओं के बीच पुलिस रहे पुलिस मित्र के रूप " में की परिकल्पना के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री उमेश शर्मा, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज की प्रेरणा के क्रम में छात्र कृष्णा पुत्र स्व0 परशुराम निवासी खखरांव थाना त्रिलोकपुर जनपद सि0नगर को इनकी माता यशोदा देवी की मौजूदगी में ट्यूशन/शिक्षा हेतु साइकिल प्रदान की गई। विगत दिनों छात्र कृष्णा की साइकिल गायब हो गई थी जिससे वह ट्यूशन/स्कूल नहीं जा पा रहा था तथा पढ़ाई बाधित हो रही थी। क्षेत्राधिकारी व प्रभारी निरीक्षक त्रिलोकपुर विगत दिन खखरांव गांव गये थे उस बीच छात्र ने साइकिल गायब होने/स्कूल/ट्यूशन न जा पाने की समस्या बताई थी। जिसके सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक त्रिलोकपुर श्री रणधीर कुमार मिश्रा द्वारा आज उसकी समस्या का समाधान करते हुये साइकिल भेंट की गई।

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 07.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में व श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ व श्री दिनेश चंद्र चौधरी थानाध्यक्ष चिल्हिया के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 07.11.2020 को नारी सुरक्षा नारी सम्मान व महिला तथा बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान नारी सम्मान व सशक्तिकरण अभियान के दौरान उप0नि0 नरेंद्र नाथ त्रिपाठी (एंटीरोमियो प्रभारी) व उप0नि0 रविकांत मणि त्रिपाठी द्वारा जीवन ज्योति आदर्श शिक्षा संस्थान रमवापुर (खास) शोहरतगढ़ चिल्हिया सिद्धार्थनगर में छात्राओं को एकत्र करके जागरूक किया गया तथा शासन द्वारा पारित दिशा निर्देश व 1090,1098,1076,181,108,102, डायल 112 तथा एंटी रोमियो और यातायात नियमावली के बारे में जागरूक किया गया तथा छात्राओं को सुरक्षा के प्रति अडिग रहने व किसी प्रकार की उत्पीड़न पर सूचना देने हेतु निम्नलिखित टोल फ्री नंबर से अवगत कराया गया।

03

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 07.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में व श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 07.11.2020 को उप-जिलाधिकारी बांसी व श्री अरुण चन्द्र, क्षेत्राधिकारी इटवा के नेतृत्व में श्री मनोज कुमार त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक मिश्रौलिया व श्री राजेश आर्य, आबकारी निरीक्षक इटवा श्री धर्मेन्द्र कुमार, आबकारी निरीक्षक बांसी मय फोर्स थाना मिश्रौलिया क्षेत्र के ओदनाताल में कच्ची शराब के निष्कर्षण व बिक्री के रोकथाम के लिए दबिश दी गई जहां पर करीब 5 कुंतल लहन नष्ट किया गया। अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण व बिक्री करने वाले संदिग्धों की तलाश कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है

04

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 07.11.2020

दिनांक 07-11-2020 को यातायात माह के सातवें दिन यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 07-11-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एकट के अंतर्गत 490 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 336 वाहनों का चालान कर कुल 348900/- रुपये शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 07.11.2020

एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत की कार्यवाही में 25 शोहदे पकड़े गये ।

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम और जनपद के सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा आज जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके और पार्क आदि स्थानों पर पाए गए 25 मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही की गयी ।

माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के दूसरे चरण में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 07-11-2020 को प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती संध्या रानी तिवारी तथा समस्त थानो की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास, पार्क तथा मुख्य सड़को, चौराहों आदि पर चेकिंग की गयी । इस दौरान 25 शोहदे पकड़े गये । शोहदो द्वारा माफी मांगने पर भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने की हिदायत देने के बाद छोड़ा गया । जनपद के विभिन्न कस्बों और गावो तथा विद्यालयो मे जागरूकता अभियान चलाया गया । जिसके अंतर्गत आज प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वाड महिला उ0नि0 श्रीमती संध्या रानी तिवारी और महिला थाना तथा जिला महिला कल्याण अधिकारी दीप्ति नारायण के संयुक्त तत्वावधान में सीन्हेश्वरी इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति अभियान कार्यक्रम किया गया जिसमें बालिकाओं को महिला सुरक्षा, महिला उत्थान, महिला हेल्प लाइन नंबर, यातायात नियम आदि की विस्तृत जानकारी दी गई तथा जनपद में सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन में मिशन शक्ति के तहत आपस में एक दूसरे से वार्तालाप किया गया और नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे 1090 वीमेन पॉवर हेल्पलाईन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाईन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा और यातायात नियमों के सम्बन्ध जानकारी दी गयी ।

एण्टी रोमियो टीम का विवरण-

- 01- महिला उ0नि0 श्रीमती संध्यारानी तिवारी प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02- आरक्षी रामविलास एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- आरक्षी राकेश कुमार यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04- महिला आरक्षी अमिता पटेल एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 05- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 06- विभिन्न थानो पर गठित एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 07.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में व श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर/यातायात के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 07.11.2020 को यातायात माह में चलाये जा रहे यातायात जागरूकता अभियान के दौरान श्री अछयवर यादव, प्रभारी यातायात सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में यातायात कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के धेन्सा बाजार व चिल्हिया बाजार में नुककड़ सभा व पोस्टर पंपलेट के माध्यम से यातायात जागरूकता व दुर्घटनाओं से बचाव हेतु बताया गया तथा लोगों को सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन एवं दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य धारण करने हेतु जागरूक किया गया ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 07.11.2020

जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना जोगिया उदयपुर का औचक निरीक्षण कर दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश ।

आज दिनांक-07.11.2020 को श्री दीपक मीणा, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर एवं श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना जोगिया उदयपुर का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें थाना कार्यालय के अपराध रजिस्टर, बीट सूचना रजिस्टर, मालखाना, आदि का निरीक्षण कर थाना परिसर की साफ-सफाई व लंबित विवेचनाओ/ प्रार्थना पत्रों का अतिशीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये । इसके साथ ही महिला संबंधी अपराधों व गंभीर प्रकृति के मुकदमों, सम्पत्ति/भूमि विवाद के प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया तथा मिशन शक्ति अभियान एवं एण्टी रोमियो अभियान को सुचारु रूप से चलाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा थाने पर आने वाले आगन्तुकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 07.11.2020

आज दिनांक 07.11.2020 को श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान में श्री राहुल सिंह यादव, प्रभारी निरीक्षक उसका बाजार के नेतृत्व में थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गयी ।

- 01- शान्ति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।
- 02- अवैध वाहन चेकिंग के दौरान 15 अवैध वाहनों से 12300/ रुपये ई-चालान किया गया ।
03. एंटी रोमियो चेकिंग के दौरान 05 व्यक्तियों द्वारा माफीनामा भर कर छोड़ा गया ।
4. यातायात माह में चलाये जा रहे यातायात जागरूकता अभियान चौकी सोहास बाजार में नुककड़ सभा व पोस्टर पंपलेट के माध्यम से यातायात जागरूकता व दुर्घटनाओं से बचाव हेतु बताया गया तथा लोगों को सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन एवं दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य धारण करने हेतु जागरूक किया गया ।

चेकिंग टीम का विवरण

- 1-उ.नि.श्री सभाशंकर पाण्डेय थाना उसका बाजार जनपद- सिद्धार्थनगर ।
- 2-उ.नि.श्री विनोद कुमार मिश्रा थाना उसका बाजार जनपद- सिद्धार्थनगर ।
- 3.उ.नि. श्री कमेश्वर सिंह थाना उसका बाजार जनपद- सिद्धार्थनगर ।
- 4.उ.नि.श्री नन्दू गौतम थाना उसका बाजार जनपद- सिद्धार्थनगर ।
- 5-हे.का.रविन्द्र निषाद थाना उसका बाजार जनपद- सिद्धार्थनगर ।
- 6-हे.का.रामउग्रह थाना उसका बाजार जनपद- सिद्धार्थनगर ।
- 7-हे.का.ध्रुवचन्द्र प्रजापति थाना उसका बाजार जनपद- सिद्धार्थनगर ।
- 8-का. शिवजी यादव थाना उसका बाजार जनपद- सिद्धार्थनगर ।
- 9- का..गिरिजेश पाण्डेय थाना उसका बाजार जनपद- सिद्धार्थनगर ।
- 10.का.राजेश कुमार थाना उसका बाजार जनपद- सिद्धार्थनगर ।
- 11- म.का. रुपा यादव थाना उसका बाजार जनपद- सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 07.11.2020

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर व थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश दूबे के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 07.11.2020 को थाना क्षेत्र में अवैध/अपमिश्रित शराब का निर्माण/बिक्री/तस्करी के रोकथाम के क्रम उ0नि0 सतीश कुमार सिंह द्वारा 01 व्यक्ति से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार गया एवं उसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 252/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01- भोला मुसहर पुत्र स्व0 मोती सा0 दुल्हा सुमाली टोला मंगरहिया थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 सतीश कुमार सिंह चौकी प्रभारी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
2. हे0का0 मोतीचन्द यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
3. का0 मिराजुद्दीन थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 07.11.2020

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 07.11.2020 को थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश दूबे व स्वाट टीम प्रभारी श्री पंकज कुमार पाण्डेय मय टीम के साथ थानाक्षेत्र में अवैध तस्करी के रोकथाम के क्रम में दो व्यक्तियों के कब्जे से 50-50 किग्रा0 की कुल 80 बोरी में कुल 40 कुण्टल अवैध विदेशी मटर कीमत करीब 250000/- रु0 मय वाहन छोटा पिकप नं0 UP55T9947 बरामद कर कस्टम कार्यालय ककरहवा रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. राजेन्द्र गुप्ता पुत्र सन्त गुप्ता सा0 महुआ थाना उसका जनपद सिद्धार्थनगर
02. इब्रार अहमद पुत्र चाँदभाई सा0 परती मोहल्ला उसका बाजार थाना उसका जनपद सिद्धार्थनगर

बरामद माल का विवरण-

50-50 किग्रा की कुल 80 बोरी में कुल 40 कुण्टल अवैध विदेशी मटर कीमती करीब 250000/- रु0 मय वाहन छोटा पिकप नं0 UP55T9947

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. श्री जयप्रकाश दूबे थानाध्यक्ष थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
02. श्री पंकज कुमार पाण्डेय प्रभारी स्वाट टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
03. उ0नि0 श्री शिव नारायण सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
04. का0 सुशील कुमार राय थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
05. का0 राकेश यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
06. का0 दिनेश चन्द यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
07. का0 अरुण कुमार सिंह स्वाट टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
08. का0 पवन कुमार तिवरी स्वाट टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
09. का0 अखिलेश यादव स्वाट टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
10. का0 मृत्युंजय कुशवाहा स्वाट टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

पांच तस्करो को पांच मोटर सायकिल व बारह बोरी खाद के साथ किया गया गिरफ्तार

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध की रोकथाम व रोकथाम तस्करी के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत, श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण, व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष कपिलवस्तु, श्री महेश सिंह के नेतृत्व में पांच तस्करो को 05 मोटर साइकिल के साथ 08 बोरी डाई , 03 बोरी यूरिया, 01 बोरी पोटाश नेपाल राष्ट्र को तस्करी कर ले जाने के प्रयास में पोखर भिटवा आम के बाग से गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार तस्करो के विरुद्ध धारा 11 कस्टम अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार तस्करो का विवरण

- 1-अमित मिश्रा पुत्र अष्ट भुजी मिश्रा सा० तितिरखा थाना गनेशपुर जिला कपिलवस्तु नेपाल राष्ट्र।
- 2-आदित्य पुत्र राजकुमार सा० पुरनिहवा थाना कपिलवस्तु, नेपाल राष्ट्र।
- 3-मो० इमरान पुत्र मो० इरशाद सा० वसन्तपुर जशोधरा गाँवपालिका रंगपुर थाना कपिलवस्तु, नेपाल राष्ट्र।
- 4-अमरीश पुत्र जगदीश सा० बजहा थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।
- 5-अरशद पुत्र जमीर सा० बजहा थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी का विवरण

- 1- 05 अदद मोटर सायकिल कुल कीमत करीब 200000/- रु।
- 2- डाई 08 बोरी कीमती करीब 14400/- रु।
- 3- पोटाश -01 बोरी कीमती करीब 1000/- रु।
- 4- यूरिया 03 बोरी कीमती करीब -900/- रु।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1-श्री महेश सिंह थानाध्यक्ष कपिलवस्तु, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2-उ० नि० श्री संजीव शुक्ला थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3-का० हरिशंकर पासवान थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।
- 4-का० दिलीप कुमार थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।
- 5-का० सलीम अहमद थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।
- 6-का० अभिषेक कुमार थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।
- 7-का० शिवपूजन वर्मा थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।
- 8-का० वेद प्रकाश यादव थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।